



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 23.10.2021

1-थाना फेस- 3 पुलिस द्वारा दुष्कर्म व धोखाधडी कर रंगदारी माँगने वाला वांछित अपराधी गिरफ्तार।

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2021 को दुष्कर्म व धोखाधडी कर रंगदारी माँगने वाला अभियुक्त सागर सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी के- 27 बी सै0 09 विजयनगर थाना विजयनगर गाजियाबाद को गढ़ी गोल चक्कर से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-

अभियुक्त द्वारा दिनांक 21.10.21 को वादिया के साथ धोखाधडी कर धोखे से होटल ओयो टाउन हाउस 333 सैक्टर 121 रूम नं0 206 में जबरदस्ती दुष्कर्म करना व 07 लाख रूपये आनलाईन धोखाधडी करके हड़पना व पैसे मांगने पर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 1088/2021 धारा 376/386/420/506/34 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1.सागर सिंह पुत्र संजय सिंह निवासी के- 27 बी सै0 09 विजयनगर थाना विजयनगर

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 1088/2021 धारा 376/386/420/506/34 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर



2- थाना बिसरख पुलिस द्वारा अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य व गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना बिसरख पुलिस द्वारा दिनांक 21.10.2021 को छपरौला फाटक के पास से गैंगस्टर एक्ट में वाछिंत अभियुक्त अरुण शर्मा उर्फ सोनू पुत्र सुधीर शर्मा निवासी खेडा धर्मपुरा थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर (जो अनिल दुजाना गैंग का सदस्य है) को गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना बादलपुर पर मु0अ0सं0457/2019 धारा 2(b)i,2(b)ii, 2(b)iv, 2(b)vii, 2(b)viii, 2(b)xi, 2(b)xii, व 3(1) गैंगस्टर अधि0 दर्ज है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरुण शर्मा उर्फ सोनू पुत्र सुधीर शर्मा निवासी खेडा धर्मपुरा थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

1. मु0अ0सं0 457/2019 धारा 2(b)i,2(b)ii, 2(b)iv, 2(b)vii, 2(b)viii, 2(b)xi, 2(b)xii, व 3(1) गैंगस्टर अधि0 थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
2. अ0सं0 13/12 धारा 307/302/120बी भादवि थाना बादलपुर गौतम बुद्ध नगर



3- थाना कासना पुलिस द्वारा 03 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 01 पिस्टल 32 बोर मय 04 जिंदा कारतूस 32 बोर, 02 अवैध चाकू, घटना में प्रयुक्त गाडी टाटा 407 तथा लूटे गये मोबाइल पार्टस के 09 कार्टन (जिनमें काफी मात्रा में मोबाइल की डिसप्ले हैं) बरामद।

थाना कासना पुलिस द्वारा दिनांक 23.10.2021 को पैरीफेरल अण्डर पास के नीचे से 03 लुटेरे 1.मोहित पुत्र मोहन सिंह नि0 भादवा थाना खुर्जा, जिला बुलन्दशहर, 2.इरशाद पुत्र शहीद खां नि0 टोडी नगला थाना सलैमपुर जिला बुलन्दशहर, 3.विशाल पुत्र अरविंद निवासी जाहिदपुर कला थाना खुर्जा, जिला बुलन्दशहर को गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तों के कब्जे से 01 पिस्टल 32 बोर मय 04 जिंदा कारतूस 32 बोर , 02 चाकू , घटना में प्रयुक्त गाडी टाटा 407 व लूटे गये मोबाइल पार्टस के 09 सील्ड कार्टन(जिनमें काफी मात्रा में मोबाइल की डिसप्ले हैं) बरामद किये गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.मोहित पुत्र मोहन सिंह नि0 भादवा थाना खुर्जा, जिला बुलन्दशहर
- 2.इरशाद पुत्र शहीद खां नि0 टोडी नगला थाना सलैमपुर जिला बुलन्दशहर
- 3.विशाल पुत्र अरविंद निवासी जाहिदपुर कला थाना खुर्जा, जिला बुलन्दशहर

अभियोग का विवरण -

- 1.मु0अ0स0 543/2021 धारा 395/412/120(ठ) भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर
- 2.मु0अ0स0 544/2021 धारा धारा 3/25 (1 ख)क आयुध अधिनियम थाना कासना गौतमबुद्धनगर
- 3.मु0अ0स0 545/2021 धारा 25(1 ख)ख आयुध अधिनियम थाना कासना गौतमबुद्धनगर
- 4.मु0अ0स0 546/2021 धारा 25(1 ख)ख आयुध अधिनियम थाना कासना गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 01 अदद पिस्टल 32 बोर
2. 04 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर

3. 02 चाकू

4. घटना में प्रयुक्त गाडी गाडी टाटा 407 नं0 यूपी 13 एटी 0682

5. लूटे गये मोबाइल पार्टस के 09 अदद कार्टन (जिनमें काफी मात्रा में मोबाइल की डिसप्ले हैं)



4- थाना सेक्टर-20 नोएडा पुलिस द्वारा नकली शर्ट को असली एलन सोली ब्राण्ड की शर्ट बताकर बेचने वाला 01 अभि0 गिरफ्तार, कब्जे से एलन सोली ब्राण्ड की नकली 231 शर्ट बरामद।

दिनांक 22/10/2021 को थाना सैक्टर 20 नोएडा पुलिस द्वारा अट्टा मार्केट नोएडा से 01 अभियुक्त अनुराग शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी डी 1704 अलीगेन्ट विलेज टेक जोन फोर्थ ग्रेटर नोएडा उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एलन सोली ब्राण्ड की नकली 231 शर्ट बरामद की गयी है।

अभियुक्त नकली शर्ट को असली एलन सोली ब्राण्ड की शर्ट बताकर बेचता था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त अनुराग शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी डी 1704 अलीगेन्ट विलेज टेक जोन फोर्थ ग्रेटर नोएडा

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 1174/21 धारा 420 भादवि व 63 कोपीराईट एक्ट

बरामदगी का विवरण-

एलन सोली ब्राण्ड की नकली 231 शर्ट



#पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह के निर्देशन में महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई गौतमबुद्धनगर द्वारा बालभिक्षावृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से मलिन बस्तियों में नव संचालित विशेष शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें का शुभारंभ किया गया।

माननीय विधायक नोएडा श्री पंकज सिंह कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

दिनांक 23.10.2021 को पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई गौतमबुद्धनगर द्वारा बालभिक्षावृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से मलिन बस्तियों में नव संचालित विशेष शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें का शुभारम्भ किया गया है। अभियान का शुभारम्भ का कार्यक्रम झुग्गी बस्ती, सेक्टर 44 नोएडा में किया गया तथा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मा0 विधायक नोएडा श्री पंकज सिंह द्वारा शिरकत की गयी।

बालभिक्षावृत्ति की प्रभावी रोकथाम के लिये कमिश्नर गौतमबुद्धनगर ने अलग रणनीति अपनाते हुये ऐसे बच्चों को उनके माता पिता से अलग करके शैल्टर होम्स में भर देने एवं गरीब माता पिता के विरुद्ध कार्यवाही करने से अलग इस समस्या की तह तक पहुंचने का प्रयास किया। गौतमबुद्धनगर की ए0एच0टी0यू0 टीम द्वारा एक प्रभावी सर्वे करके ऐसे मलिन बस्तियों को चिन्हित किया जो बच्चों की बालभिक्षावृत्ति में सबसे अधिक योगदान कर

रही थी। कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की महिला सुरक्षा इकाई व ए0एच0टी0यू0 टीम ने चाईल्ड लाईन के सहयोग से सभी मलिन बस्तियों में माता पिता के जागरूकता के लिये कार्यक्रम आयोजित किये तथा उनसे वार्ता की। इस स्थिति में एक प्रभावी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से गौतमबुद्धनगर पुलिस ने जैनपैक्ट एवं 06 NGOs के साथ मिलकर **"सब पढ़ें सब बढ़ें"** कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

इस अभियान में जैनपैक्ट कम्पनी के सहयोग से मलिन बस्तियों में ऑल वैदर टेन्ट लगवाये गए हैं, जिनमें बच्चों के बैठने के लिये कालीन, बुक्स, स्कूल बैग एवं स्टेशनरी की व्यवस्था करायी गयी है। अभियान में लगे सभी NGO's को लैपटॉप एवं स्पीकर प्रदान किये गये हैं। कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की विभिन्न मलिन बस्तियों में 06 NGO's (सेंटर फॉर सोशल चेंज, निरन्तर प्रयास, भविष्य, केयर एंड शेयर, ढाई अखर एवं वार्तालोक) द्वारा इस अभियान पर कार्य किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी एक उत्साही सहभागी की भूमिका निभायी जा रही है उनकी रिसोर्सेज पर्सन श्रीमती आकांशा सक्सेना द्वारा इस अभियान में शामिल NGO's को एक ट्रेनिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के असेसमेन्टस स्टैण्डर्ड्स में प्रशिक्षण प्रदान किया गया एवं सभी शिक्षा सामग्री जो विडियोलेसन्स के रूप में है और कोरोना महामारी के दौरान तैयार करायी गयी थी वह भी उपलब्ध करायी जा रही है।

इस अभियान के दौरान सभी बच्चों की हाई क्वालिटी फेशियल मैपिंग भी ए0एच0टी0यू0 गौतमबुद्धनगर टीम द्वारा की जायेगी ताकि भविष्य में इन बच्चों का पुनः बालभिक्षावृत्ति अथवा अपराधों की ओर जाना प्रतिबन्धित किया जा सकें।

पुलिस कमिश्नर श्री आलोक सिंह द्वारा कार्यक्रम के समापन के दौरान अपने सम्बोधन में सभी NGO's व सहयोगी टीमों का धन्यवाद करते हुये कहा गया कि समाज को नई दिशा देते हुये इस प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पुलिस विभाग, NGO's व अन्य सहयोगियों की मदद से जिस प्रकार कोरोना की प्रथम लहर में पीडितों को राशन, दवाईया एवं मूलभूत आवश्यकताओं को भलि भाँति पूर्ण किया गया एवं दूसरी लहर में भी ऑक्सीजन की सप्लाई एवं अन्य प्राथमिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में सहयोग किया गया है। जिस प्रकार से पुलिस विभाग एवं NGO's द्वारा मानवता का प्रदर्शन करते हुए अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया है उससे आज इन मलिन बस्तियों से आये बच्चों के

चहरों की मुस्कान हम सभी को इसी प्रकार आगे भी मानवहित में कार्य करते रहने की प्रेरणा देती है।

इस कार्यक्रम के दौरान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय पुष्पाजंलि, श्रीमती आंकाक्षा सिंह पत्नी श्री आलोक सिंह, पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा वृन्दा शुक्ला, पुलिस उपायुक्त नोएडा राजेश एस., अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त नोएडा प्रथम अंकिता शर्मा, रजत खत्री प्रबन्धक जैनपैक्ट व अन्य पुलिस अधिकारीगण एवं मीडिया बन्धु और मलिन बस्तियों से आये बच्चे व उनके परिजन उपस्थित रहें।

